

कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट

COMMODITY





प्रमुख खबरें

- भारत ने कैलेंडर वर्ष 2022 में 9,450 टन चांदी का आयात किया है, जो देश का अब तक का सर्वाधिक वार्षिक आयात है। इसके पहले 2015 में चांदी के आयात का अधिकतम आयात 8,093 टन हुआ था।
- भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1 फरवरी से खुले बाजार में गेहूँ की बिक्री के लिए अपनी पहली ई-नीलामी आयोजित करने की संभावना है। खाद्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार एफसीआई के स्टॉक से अगले दो महीनों में आटा मिलों, राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों और सहकारी समितियों आदि की साप्ताहिक नीलामी के तहत 3 मिलियन टन गेहूँ की बिक्री की जाएगी।
- चिली की सरकारी कंपनी कोचिलको का अनुमान है कि 2023 में 160,000 टन और 2024 में 360,000 टन का वैश्विक सरप्लस रहने की उम्मीद है, जो दो से पांच दिनों के तांबे की खपत के बराबर है।
- संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि इस वर्ष वैश्विक आर्थिक विकास दर घटकर 1.9 प्रतिशत रह जाएगी।

NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	20.01.23	26.01.23	बदलाव (%)
सीसेमसीड	17300.00	19295.00	11.53%
धनिया	7322.00	8098.00	10.60%
बाजरा	2250.00	2294.00	1.96%
धान	4600.00	4670.00	1.52%
कैस्टर ऑयल	1438.00	1447.00	0.63%

NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	20.01.23	26.01.23	बदलाव (%)
ग्वारगम	13460.00	12390.00	-7.95%
ग्वारसीड	6174.00	5862.00	-5.05%
जीरा	32875.00	31485.00	-4.23%
हल्दी	8028.00	7744.00	-3.54%
कॉटनऑयलसीडकेक	2883.00	2839.00	-1.53%

साप्ताहिक समीक्षा

अवकाश के कारण यह भारतीय बाजार में छोटा सप्ताह था और बाजार में चीन की भागीदारी नहीं थी क्योंकि वे सप्ताह भर चलने वाले लूनर नव वर्ष का जश्न मना रहे थे। सीआरबी इंडेक्स एक दायरे में मिला-जुला कारोबार करता रहा है। डॉलर इंडेक्स में लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट जारी रही और 102 के स्तर से नीचे बंद हुआ। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड अक्टूबर में 4.33 के उच्च स्तर पर पहुंच गया था जो अब 3.46 के करीब कारोबार कर रहा है जिससे बुलियन और अन्य कमोडिटीज की कीमतों को मदद मिली। सोने की कीमतों की तेजी में ठहराव देखा गया जबकि सोने की तुलना में चांदी की कीमतों में अधिक तेजी रही। भारतीय रूपये के कमजोर होने से ने एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में मामूली रूप से बढ़त दर्ज की गई। एमसीएक्स में सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया क्योंकि मंदी की आशंका ने सुरक्षित निवेश के रूप में मांग को बढ़ा दिया। पिछले 3-4 सप्ताह से लेड को छोड़कर बेस मेटल में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। जनवरी में यूरो जोन की व्यावसायिक गतिविधियों ने मामूली वृद्धि के साथ आश्चर्यजनक वापसी की। चीन की ओर से मांग की उम्मीद से अन्य देशों में धीमी खपत की भरपाई होने की संभावना से बेस मेटल की कीमतों की तेजी को मदद मिली। एनर्जी काउंटर में, कच्चे तेल की कीमतों की तेजी पर रोक लगी लेकिन नेचुरल गैस की कीमतों में गिरावट से कोई राहत नहीं मिली है और लगातार छठे सप्ताह में गिरावट हुई है। उत्तरी गोलार्ध की सर्दियों के दौरान दो दशकों में सबसे गर्म मौसम के बाद हीटिंग के लिए मांग कम होने के बीच वर्ष की शुरुआत के बाद से नेचुरल गैस की कीमतों में लगभग 30% की गिरावट हुई है। गिरावट से पहले, अगस्त 2022 में हेनरी हब में फ्रंट-महीने का कॉन्ट्रैक्ट 14 साल के उच्च स्तर 10 डॉलर पर पहुंच गया था। वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी के बारे में चिंताओं के कारण मंगलवार को कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट हुई और प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में अनुमान से अधिक वृद्धि का संकेत मिला। अमेरिकी व्यापार गतिविधि जनवरी में लगातार सातवें महीने में कम हुई, लेकिन सितंबर के बाद पहली बार मैनुफैक्चरिंग और सेवा दोनों क्षेत्रों में गिरावट में कमी दर्ज की गई और नया साल शुरू होते ही व्यावसायिक विश्वास मजबूत हुआ। इसबीच कच्चे तेल की कीमतों और तैयार उत्पादों की बिक्री कीमतों के बीच अंतर, रिफाइनरों के मुनाफे का एक प्रमुख मापदंड है, मंगलवार को 42.41 डॉलर पर पहुंच गया, जो अक्टूबर के बाद सबसे अधिक है। रिफिनिटिव आंकड़ों के अनुसार जनवरी महीने में पांच साल का औसत 15.56 डॉलर है।

कृषि कमोडिटीज में, कॉटन ऑयलसीडकेक की कीमतों में तीसरे सप्ताह गिरावट जारी रही। प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर आपूर्ति बढ़ने के कारण ग्वार की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट के साथ कारोबार हुआ। कटाई गतिविधियों में प्रगति के साथ आपूर्ति में सुधार के कारण कैस्टरसीड की कीमतें एक दायरे में रही। अरंडी तेल का सुस्त निर्यात मांग कारोबारियों के लिए अभी भी एक बड़ी चिंता है क्योंकि निर्यात में गिरावट के साथ घरेलू शोयर्स में तेजी आ रही है। मसालों में, जीरे की कीमतों में गिरावट हुई है। हल्दी और धनिया की कीमतों में नरमी के साथ कारोबार हो रहा है। स्थानीय बाजार में कमजोर मांग के कारण हल्दी की कीमतों में गिरावट हुई। नई फसल की शुरुआत के साथ तेलंगाना में आपूर्ति में सुधार की उम्मीद है। जीरा की कीमतों में गिरावट हुई है क्योंकि मिल मालिक और निर्यातक आने वाले नए फसल सीजन को देखते हुए थोक खरीद से परहेज कर रहे हैं।

- केंद्र ने जन वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए चालू सीजन में एक मीट्रिक टन मोटे अनाज की खरीद का लक्ष्य रखा है।
- अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, केंद्र ने अप्रैल-2020 और दिसंबर-2022 के बीच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के सात चरणों के कार्यान्वयन के लिए कुल 3.43 ट्रिलियन रुपये खर्च किए।
- वाणिज्य मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रकोप के बाद पूंजीगत वस्तुओं के लिए एक योजना के तहत चुनिंदा क्षेत्रों के व्यापारियों को औसत निर्यात दायित्व बनाए रखने से सशर्त एकमुश्त राहत देने के लिए मानदंडों में ढील दी।
- जनवरी 2023 के शॉर्ट-टर्म एनर्जी आउटलुक में, ईआईए ने अनुमान लगाया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन 2023 में औसतन 12.4 मिलियन बैरल प्रति दिन और 2024 में 12.8 मिलियन बैरल प्रति दिन होगा, और 2019 में उत्पादित 12.3 मिलियन बैरल प्रति दिन के पिछले रिकॉर्ड को पार कर जाएगा।

MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	20.01.23	26.01.23	बदलाव (%)
एल्युमीनियम	220.60	226.30	2.58%
तांबा	776.10	792.80	2.15%
सोना पेटल	5565.00	5656.00	1.64%
सोना गिनी	45339.00	45800.00	1.02%
सोना	56658.00	56962.00	0.54%

MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	20.01.23	26.01.23	बदलाव (%)
नेचुरल गैस	262.60	254.40	-3.12%
मेंथा ऑयल	1018.50	997.40	-2.07%
लेड	189.05	186.10	-1.56%
कच्चा तेल	6620.00	6533.00	-1.3%
निकल	2382.50	2370.00	-0.5%



हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	20.01.23	25.01.23	(%)
जौ	जयपुर	2915.00	2975.00	2.06%
चना	दिल्ली	5079.15	5054.55	-0.48%
धनिया	कोटा	7974.65	7709.55	-3.32%
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	836.40	824.05	-1.48%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1170.00	1171.00	0.09%
ग्वारसीड	जोधपुर	6195.00	5886.00	-4.99%
ग्वारगम	जोधपुर	13404.00	12637.00	-5.72%
जीरा	ऊंझा	34136.70	32187.00	-5.71%
सरसों	जयपुर	6300.00	6147.30	-2.42%
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	1220.00	1180.00	-3.28%
सोयाबीन	इंदौर	5655.55	5513.60	-2.51%
हल्दी	निजामाबाद	7391.60	7272.95	-1.61%
गेहूं	दिल्ली	3090.85	3250.00	5.15%
कॉटन	कडी	29845.15	29459.70	-1.29%
कॉटनऑयलसीडकेक	अकोला	3040.00	2962.15	-2.56%

LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत (डॉलर में)

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	20.01.23	26.01.23	बदलाव(%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	2610.50	2639.00	1.09%
तांबा	LME	नकद	9324.00	9329.50	0.06%
लेड	LME	नकद	2089.00	2204.50	5.53%
निकल	LME	नकद	28771.00	29427.00	2.28%
जिंक	LME	नकद	3420.50	3486.50	1.93%
सोना	COMEX	फरवरी	1928.20	1930.00	0.09%
चांदी	COMEX	मार्च	23.94	24.02	0.33%
लाइट क्रूड	NYMEX	मार्च	81.64	81.01	-0.77%
नेचुरल गैस	NYMEX	फरवरी	3.17	2.99	-5.68%

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	20.01.23	26.01.23	बदलाव (%)
सोयाबीन	CBOT	मार्च	15.06	15.23	1.13%
सोया तेल	CBOT	मार्च	61.97	60.79	-1.90%
कॉटन	ICE	मार्च	80.70	87.50	8.43%
सीपीओ	BMD	मार्च	3,892.00	3,781.00	-2.85%

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	19.01.23 क्वांटिटी	26.01.23 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	20	20	0
कैस्टर सीड	मी.टन	0	0	0
चना	मी.टन	21803	21738	-65
धनिया	मी.टन	2200	1064	-1136
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	555	657	102
ग्वारगम	मी.टन	14592	15556	964
ग्वारसीड	मी.टन	13998	19932	5934
जीरा	मी.टन	2898	1853	-1045
मक्का	मी.टन	214	41	-173
सोयाबीन	मी.टन	0	0	0
हल्दी	मी.टन	0	0	0

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	20.01.23 क्वांटिटी	25.01.23 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	2524	4507	1983
तांबा	मी.टन	1724642	1632745	-91897
सोना	किग्रा	467	467	0
सोना मिनी	किग्रा	13472	13456	-16
सोना गिनी	किग्रा	62800	62800	0
लेड	किग्रा	408	676	268
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	195745	201118	5374
चांदी एम	किग्रा	40935	40935	0
जिंक	मी.टन	1923	1902	-21

LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 20.01.23	स्टॉक की स्थिति 26.01.23	अंतर
एल्युमीनियम	385850	381550	-4300.00
तांबा	81600	77100	-4500.00
निकल	51960	50508	-1452.00
लेड	20975	20250	-725.00
जिंक	19150	18625	-525.00



ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कॉन्ट्रैक्ट	बंद* भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	मार्च	31485.00	25.01.23	मंदी	31485.00	-	33300.00	33500.00
NCDEX	हल्दी	अप्रैल	7744.00	25.01.23	मंदी	7744.00	-	7990.00	8050.00
NCDEX	ग्वारसीड	फरवरी	5862.00	10.11.22	तेजी	5183.00	5800.00	-	5750.00
NCDEX	कैस्टरसीड	फरवरी	6936.00	12.12.22	मंदी	7500.00	-	7350.00	7400.00
NCDEX	स्टील लांग	फरवरी	50090.00	26.12.22	तेजी	47300.00	49200.00	-	49000.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	फरवरी	2839.00	03.10.22	तेजी	2300.00	2730.00	-	2700.00
MCX	मेंथा ऑयल	फरवरी	1009.10	16.01.23	मंदी	1050.00	-	1065.00	1070.00
MCX	बुलडेक्स	फरवरी	15748.00	10.11.22	तेजी	14545.00	15430.00	-	15400.00
MCX	चांदी	मार्च	68676.00	10.11.22	तेजी	61911.00	67300.00	-	67200.00
MCX	सोना	फरवरी	56962.00	10.11.22	तेजी	52109.00	55900.00	-	55800.00
MCX	मेटलडेक्स	फरवरी	19370.00	23.06.22	साइडवेज	17963.00	18400.00	19700.00	-
MCX	तांबा	फरवरी	792.80	09.01.23	तेजी	750.00	745.00	-	740.00
MCX	लेड	फरवरी	186.10	15.12.22	साइडवेज	185.50	183.00	193.00	-
MCX	जिंक	फरवरी	300.75	09.01.23	तेजी	275.00	282.00	-	280.00
MCX	एल्युमिनियम	फरवरी	226.30	09.01.23	तेजी	210.00	211.00	-	210.00
MCX	कच्चा तेल	फरवरी	6533.00	11.01.23	तेजी	6100.00	6330.00	-	6300.00
MCX	नेचुरल गैस	फरवरी	245.40	19.12.22	मंदी	480.00	-	280.00	285.00

*25/01/2023 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लॉस बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लॉस को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पड़बूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लॉस अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर ग्राफ को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना के ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

टेक्निकल सुझाव

कच्चा तेल (फरवरी) एमसीएक्स



कच्चा तेल (फरवरी) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 6781.00

निचला स्तर: 6080.00

एमसीएक्स में कच्चा तेल (फरवरी) कॉन्ट्रैक्ट 25 जनवरी 2023 को 6533.00 रु पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 6554.26 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 57.63 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीदारी का संकेत दे रहे हैं।

6400.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 7090.00 रु के टारगेट के लिए 6650.00 रु के नजदीक खरीदारी जा सकती है।

स्टील लांग (फरवरी) एनसीडीईएक्स



स्टील लांग (फरवरी) एनसीडीईएक्स

उच्च स्तर: 51500.00

निचला स्तर: 46240.00

एनसीडीईएक्स में स्टील लांग (फरवरी) कॉन्ट्रैक्ट 25 जनवरी 2023 को 50120.00 रु पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 48175.69 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 60.568 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

50750.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 48500.00 रु के टारगेट के लिए 50000.00 रु के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

सोना (अप्रैल) एमसीएक्स



सोना (अप्रैल) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 57500.00

निचला स्तर: 55471.00

एमसीएक्स में सोना (अप्रैल) कॉन्ट्रैक्ट 25 जनवरी 2023 को 57465.00 रु पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 55307.17 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 65.272 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

57800.00 रु के स्टॉपलॉस के साथ 56000.00 रु के टारगेट के लिए 57200.00 रु के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।



अगले सप्ताह में बाजार का रुख

मसाले

कमजोर हाजिर मांग के कारण हल्दी की कीमतों में गिरावट की संभावना है। तेलंगाना में नई फसल की आवक शुरू होने की संभावना है जिससे आपूर्ति में वृद्धि होगी। स्टॉकिस्ट पुराने स्टॉक को जारी कर रहे हैं जिसमें खरीदार कीमतों में अधिक गिरावट की आशंका से काफी कम खरीदार कर रहे हैं। लेकिन निर्यात मांग में सुधार से कीमतों में बड़ी गिरावट पर रोक लगने की संभावना है। भारत ने नवंबर 21 में 12.2 हजार टन की तुलना में नवंबर 22 लगभग 12.4 हजार टन हल्दी का निर्यात किया। तकनीकी रूप से, हल्दी वायदा (अप्रैल) की कीमतों को 7900 पर रेजिस्टेंस रहने की संभावना है और 7400 तक गिरावट हो सकती है।

सुस्त हाजिर मांग के कारण जीरा (मार्च) वायदा की कीमतों पर दबाव रहने की संभावना है। नए फसल सीजन को देखते हुए मिलें और निर्यातक थोक खरीद से परहेज कर रहे हैं। लेकिन, आगामी सीजन में कमजोर उत्पादन संभावना के कारण जीरे की कीमतों में तेजी रहने की संभावना है। जीरा वायदा (मार्च) कीमतें 38000 के रेजिस्टेंस के साथ 32000 तक लुढ़क सकती है।

हाजिर बाजार में कमजोर मांग के कारण धनिया वायदा (अप्रैल) की कीमतों में कमजोरी के साथ कारोबार करने की संभावना है। धनिया के तहत उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि की रिपोर्ट और सामान्य फसल प्रगति से बेहतर उपज की संभावनाएं बाजार के सेंटीमेंट को प्रभावित सकती है। प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर आपूर्ति पर्याप्त है और नई फसल की आवक बढ़ने पर इसमें आगे भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। नई फसल की कटाई मार्च में शुरू होने की संभावना है जो खरीदारों को भारी खरीदारी से दूर रखे हुए है। धनिया की कीमतों में मुख्य रुझान नरमी का है और कीमतें 8500 के रेजिस्टेंस के साथ निकट अवधि में 7700 के स्तर को छू सकती हैं।

अन्य कमोडिटीज

स्थानीय बाजार में बेहतर खरीदारी के बाद एनसीडीईएक्स पर कपास वायदा (अप्रैल) की कीमतों में मिलाजुला रुझान रहने की संभावना है। प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर सामान्य से कम आवक और दक्षिणी क्षेत्र में हाल ही में हुई बारिश के कारण उपज नुकसान को लेकर बढ़ती अनिश्चितता से कीमतों को समर्थन मिलने की संभावना है। पिछले साल की तुलना में कपास की आवक कम है, क्योंकि किसान बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद में अपनी उपज को जमाखोरी कर रहे हैं। भौतिक बाजार में आपूर्ति की कमी के मद्देनजर, भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से 3 लाख बेल कपास के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। कपास की कीमतों को 1570-1660 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

हाजिर बाजारों में सुस्त मांग के कारण कॉटनसीडऑयल केक (फरवरी) वायदा की कीमतों में नरमी रहने की संभावना है। पशुआहार उद्योग में मांग कम हो गई है। सरसों मील का उपयोग भारत के उत्तरी भाग में कॉटनसीडऑयल केक के विकल्प के रूप में किया जाता है। कॉटनसीडऑयल केक की आपूर्ति आपूर्ति अधिक होने की संभावना है क्योंकि किसानों के पास बेहतर मूल्य की प्राप्ति की संभावना से कपास का भारी स्टॉक है। कीमतों को 2800-2950 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

ग्वारसीड (फरवरी) वायदा की कीमतों में गिरावट की संभावना है क्योंकि प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर आपूर्ति बढ़ने के बाद कीमतों पर दबाव बने रहने की संभावना है। कीमतों में हालिया बढ़त के बाद आवक में फिर से सुधार होना शुरू हो गया है। लेकिन ग्वारगम की मजबूत निर्यात मांग के कारण ग्वार समूह में प्रमुख रुझान सकारात्मक रहने की संभावना है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने नवंबर 22 के महीने में लगभग 19 हजार टन ग्वारगम का निर्यात किया, जबकि वर्ष 2021 की समान अवधि में 16.9 हजार टन निर्यात हुआ था। वर्ष 2022 में नवंबर तक भारत का कुल ग्वारगम निर्यात 227.13 हजार टन तक पहुंच गया है, जो साल-दर-साल 16% अधिक है। ग्वारसीड की कीमतों को 5550-6400 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। ग्वारगम की कीमतें 11000-14000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

मांग में बढ़ोतरी के कारण मेंथा ऑयल वायदा (फरवरी) की कीमतों को तेजी के रुझान के साथ साइडवेज कारोबार करने की संभावना है। चीन में बेहतर आर्थिक आंकड़ों के साथ, मेन्थॉल की निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे कीमतों की गिरावट पर रोक लग सकती है। आवक की ऑफ सीजन अवधि के कारण आपूर्ति कम हो गई है। कीमतों को 985-1040 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

कटाई गतिविधियों में प्रगति के साथ आपूर्ति में सुधार के कारण अरंडी वायदा (फरवरी) की कीमतों में गिरावट की संभावना है। सुस्त निर्यात मांग अभी भी अरंडी तेल व्यापारियों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है क्योंकि निर्यात में गिरावट के साथ घरेलू स्टॉक बढ़ रहे हैं। चीन में आर्थिक गतिविधियों में मंदी के कारण जनवरी-नवंबर 22 के दौरान कैस्टर ऑयल का निर्यात 16% घटकर 543.4 हजार टन रह गया। अरंडी की कीमतों को 6700-7300 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

सर्पफा

पूरे सप्ताह सोने का कारोबार काफी कम दायरे देखा गया, क्योंकि व्यापारियों को अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में अधिक बढ़ोतरी की संभावना का इंतजार है। डॉलर इंडेक्स में तेजी आई जिससे सोने की कीमतों की तेजी पर रोक लग गई। सोने की कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है क्योंकि डॉलर उच्च स्तर पर है और अमेरिकी जीडीपी आंकड़ा भी कीमतों पर थोड़ा दबाव डाल रहा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था दिसंबर तिमाही में अर्थशास्त्रियों के अनुमान की तुलना से तेज गति से बढ़ी, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि फेड दरों को लंबे समय तक बनाए रखेगा। लेकिन फेड की आक्रामक सख्ती के प्रभाव से पहले ठोस विकास की यह अंतिम तिमाही हो सकती है, जबकि अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने 2023 की दूसरी छमाही तक मंदी की उम्मीद की है। ज्यादातर कारोबारियों का अनुमान है कि फेड 31 जनवरी-1 फरवरी को होने वाली अपनी बैठक में दरों में 25 बेसिस प्वाइंट की वृद्धि करेगा। इसके पहले दिसंबर में हुई नीतिगत बैठक, में दरों में 50 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की थी। केंद्रीय बैंक के आगे के मार्ग पर संकेतों के लिए निवेशक अब अमेरिकी व्यक्तिगत उपभोग व्यय आंकड़ों और फेड के पसंदीदा मुद्रास्फीति नियंत्रण उपाय का इंतजार कर रहे हैं। आंकड़ों के कमजोर रहने से फेड कम आक्रामक बढ़ोतरी की ओर इशारा कर सकता है, जिससे लंबे समय में सोने की कीमतों का मदद मिल सकती है। बुलियन के लिए कम ब्याज दरें फायदेमंद होती हैं क्योंकि यह गैर-यिल्ड वाली संपत्ति रखने की अवसर लागत को कम करती है। कॉम्पेक्स पर सोने की कीमतों ने नरमी के रुझान वाला एनगल्फिंग पैटर्न का गठन किया है। इस पैटर्न के आधार पर कीमतें 1910 तक गिर सकती हैं और इसके बाद 1890 तक लुढ़क सकती हैं। उच्च स्तर पर 1950 का स्तर विक्रमताओं के लिए महत्वपूर्ण है। चांदी की कीमतें नरमी के रुझान के साथ 22.770-24.520 के दायरे में कारोबार कर सकती है। एमसीएक्स पर सोने की कीमतें नरमी के रुझान के साथ 54500-58000 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। चांदी भी के रुझान के साथ 64000-71000 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

एनर्जी कॉम्प्लेक्स

2022 की चौथी तिमाही में उम्मीद से बेहतर अमेरिकी जीडीपी आंकड़ों के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। अमेरिका के आर्थिक विश्लेषण ब्यूरो द्वारा जारी अग्रिम अनुमान के अनुसार, अमेरिका का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2022 की चौथी तिमाही में 2.9 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा जबकि बाजार इसके 2.6 प्रतिशत रहने की उम्मीद कर रहा था। 2022 की तीसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। आर्थिक विश्लेषण ब्यूरो के अनुमान में कहा गया है कि वास्तविक जीडीपी में वृद्धि निजी भंडार निवेश, उपभोक्ता खर्च, संघीय सरकार के खर्च, राज्य और स्थानीय सरकार के खर्च और गैर-आवासीय खर्चों में वृद्धि को दर्शाती है। बाजार के सेंटीमेंट को बढ़ावा देने वाला एक अन्य कारक चीन में कोविड मामलों में कमी है। चीन के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में कोविड से गंभीर रूप से बीमार मामले इस महीने की शुरुआत के उच्चतम स्तर से 72% कम हो गए हैं, जबकि अस्पतालों में मरीजों की दैनिक मृत्यु अपने अधिकतम स्तर से 79% कम हो गई है। चीन ने हाल ही में अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयास में अपने सख्त कोविड नियंत्रण उपायों में ढील दी। कोविड मामलों की संख्या में कमी से कच्चे तेल के बाजार के सेंटीमेंट को बढ़ावा मिलने में मदद मिलेगी क्योंकि चीन एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता है। इस बीच यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने कहा है कि यूरोपीय आयोग प्रस्ताव कर रहा है कि यूरोपीय संघ रूसी प्रीमियम तेल उत्पादों जैसे डीजल पर 100 डॉलर प्रति बैरल मूल्य सीमा और ईंधन तेल जैसे रियायती उत्पादों पर 45 डॉलर प्रति बैरल की सीमा तय किया जाय। इस सप्ताह में कच्चे तेल में खरीदारी होने की संभावना है और कीमतें 6450-7090 के दायरे में कारोबार कर सकती है। नेचुरल गैस की कीमतें अप्रैल 2021 के बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई हैं और मांग कमजोर होने के कारण उच्च स्तर से 70% कम हो गई हैं। इस सप्ताह में कीमतों में गिरावट जारी रह सकती है और कीमतें 190-280 के दायरे में कारोबार कर सकती है।



बेस मेटल

बेस मेटल की कीमतें तेजी के रूझान के साथ कारोबार कर सकती हैं क्योंकि लूनर नव वर्ष की लंबी छुट्टी के बाद बाजार फिर से खुलने के कारण चीन की ओर से बेहतर मांग की उम्मीद में कीमतों को मदद मिल सकती है। मौजूदा कोविड-19 संकट से चीन के उबरने की गति, वैश्विक मौद्रिक नीति को सख्त करने की गति और चीन के बुनियादी ढांचे पर खर्च की संभावना से मांग को मदद मिल सकती है। चीन ने जनवरी में अपनी बेंचमार्क उधार दरों को लगातार पांचवें महीने में अनुमान के अनुकूल अपरिवर्तित रखा, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि भविष्य में कटौती संभव है क्योंकि केंद्रीय बैंक ने कोविड से तबाह अर्थव्यवस्था का समर्थन करने का संकल्प लिया है। लेकिन मजबूत अमेरिकी विकास के कारण फंड ब्याज दर में आक्रामक बढ़ोतरी का संकेत दे सकता है जिससे डॉलर का समर्थन मिल सकता है। तांबे की कीमतें 770-810 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। शीर्ष तांबा उत्पादकों चिली और पेरू में आपूर्ति बाधित होने की आशंकाओं ने चिंताएं बढ़ा दी हैं कि चीन के फिर से खुलने से अतिरिक्त मांग पहले से ही कम सप्लाई वाले बाजार को खींच सकती है। सरकारी स्वामित्व वाले चिली के कोचिलको ने 2023 तांबे की कीमतों के लिए अपने अनुमान को बढ़ाकर 3.85 डॉलर प्रति पाउंड कर दिया, जो दिसंबर 3.70 डॉलर प्रति पाउंड था, क्योंकि दुनिया भर में भंडार में गिरावट आई है। जिंक की कीमतें 290-315 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। लेड की कीमतें 183-196 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एल्युमीनियम की कीमतें 215-240 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। पश्चिमी बाजारों में एल्युमीनियम इंगट का प्रीमियम इस महीने इन अटकलों पर बढ़ गया है कि लूनर नव वर्ष की छुट्टी के बाद चीनी मांग बढ़ने और पश्चिम में उत्पादन घटने के कारण पहले से कम आपूर्ति स्तरों के मुकाबले संतुलन बिगड़ जाएगा। एनसीडीईएक्स पर स्टील लॉन्ग (फरवरी) की कीमतें 48500-51000 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। मजबूत घरेलू मांग परिदृश्य से इस्पात की कीमतों को लाभ मिलने की संभावना है। बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए, क्षमता के अधिक उपयोग से स्थानीय इस्पात उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।

कृषि उत्पाद पर भारत की निर्भरता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भाषण में कहा था कि “जब हमारे देश को भोजन की आवश्यकता थी तो हमने इसे किसी और से आउटसोर्स नहीं किया बल्कि हमारे देशवासियों ने फसला किया कि हम अपने लोगों के लिए अन्न का उत्पादन करेंगे और हम इसे हासिल करने में कामयाब रहे।” अपने लिए अनाज का स्वयं उत्पादन करने में मिली सफलता दर्शाती है कि एक बार जब भारत कुछ करने का ठान लेता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। लेकिन, हम कुछ कृषि उत्पादों जैसे खाद्य तेल, चीनी और दालों में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल नहीं कर पाए हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध का कृषि बाजार पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है और कृषि उत्पादों की कीमतें ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं जिसने वैश्विक खाद्य सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस संकट की घड़ी में भारत ने खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ ही विश्व के एक बड़े हिस्से की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया है। लेकिन भारत अभी भी कई कृषि उत्पादों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है।

खाद्य तेल और खाद्यान्न आयात पर भारत की निर्भरता

भारत खाद्य तेलों और दालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है और यह खाद्यान्न और कई अन्य वस्तुओं जैसे दूध, फलों और सब्जियों के मामले में काफी हद तक आत्मनिर्भर है। 2019-20 के दौरान भारत का कृषि और संबद्ध आयात 1.47 लाख करोड़ रुपये था, और 2020-21 के सर्वाधिक आंकड़े 1.58 लाख करोड़ रुपये के हैं।

आयातित खाद्य तेल पर भारत की निर्भरता करीब 65-70 फीसदी बनी हुई है। तेल वर्ष 2021-22 (दिसंबर-नवंबर) में, भारत ने 140.3 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया, जबकि 2020-21 में 131.3 लाख टन आयात हुआ था। दुनिया पर खाद्य तेल की निर्भरता को कम करने के सरकार के प्रयास के बावजूद, भारत को अभी भी 2030-31 में 70,000 करोड़ रुपये के मूल्य के 72 लाख टन खाद्य तेल का आयात करना होगा, जो 300 लाख टन खाद्य तेल की कुल आवश्यकता का 23 प्रतिशत होगा।

अन्य प्रमुख कृषि-आयात ताजे फल, दालें, मसाले और काजू हैं। इन पांच उत्पादों का भारत के कुल कृषि-आयात में 79.4 प्रतिशत हिस्सा है।


देश में दालों की कुल वार्षिक खपत का लगभग 15% आयात करता है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का दालों का आयात 9.44 प्रतिशत बढ़कर लगभग 26.99 लाख टन हो गया, जो 2020-21 में 24.66 लाख टन था। डीजीसीआईएस के आंकड़ों के मुताबिक, 2021-22 के दौरान मूल्य के हिसाब से आयात करीब 39 फीसदी बढ़कर 16,627 करोड़ रुपये (करीब 2.22 अरब डॉलर) हो गया, जो पिछले साल 11,937 करोड़ रुपये (1.61 अरब डॉलर) था।

कपास का आयात

भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक रहा है, लेकिन लगभग 5% से 10% कपास मिस्र, सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य मूल से आयात किया गया है, जो भारत में उत्पादित नहीं होने वाली या कम उत्पादन वाली किस्में जैसे अतिरिक्त लंबे स्टेपल कपास और संदूषण मुक्त कपास हैं।

मसालों का आयात

मसालों के मामले में भारत बड़ा आयातक (2021-22 में 1.3 अरब डॉलर) और निर्यातक (3.9 अरब डॉलर) दोनों ही है। वियतनाम, श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे देशों से काली मिर्च, इलायची और अन्य पारंपरिक बागानी मसालों के आयात में वृद्धि हुई है।





एसएमसी रिसर्च डेस्क

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:
11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का निम्न भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एससीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सदस्य हैं। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिम्प्लिफाइड मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार को परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

डिसक्लेमर: यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सल्यूशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाने गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ)समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौचों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।